

मीरजापुर पुलिस  
प्रेस नोट

दिनांक: 05.08.2022

मीरजापुर पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर मंदिर से चोरी हुआ मुकुट बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार —

थाना को0देहात, जनपद मीरजापुर पर दिनांक 04.08.2022 को वादी तिलोकी नाथ शुक्ल पुत्र स्व0 विजय कुमार शुक्ल निवासी लंकापुरी शुक्लहा भरुहना थाना को0देहात जनपद मीरजापुर की लिखित तहरीर बावत पंचमुखी हनुमान मंदिर लंकापुरी शुक्लहा भरुहना से मंदिर से मुकुट, घण्टा व पूजा का सामान चोरी हो जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-159/2022 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा उक्त चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम गठित कर घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में उ0नि0 नरेन्द्र कुमार यादव चौकी प्रभारी भरुहना थाना को0देहात मीरजापुर मय पुलिस बल द्वारा आज दिनांक 05.08.2022 को अभियुक्त दिनेश सोनकर उर्फ डूलडूल पुत्र स्व0 लल्लू सोनकर निवासी शुक्लहा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मंदिर से चोरी किया गया एक अदद चांदी का मुकुट, 06 अदद चांदी का कड़ा, 02 अदद पीतल की घण्टी, 01 अदद पीतल का दीपदान, पूजा का पीतल का बर्तन कुल 22 नग व 01 अदद लोहे का सड़सीनुमा औजार बरामद किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा घटना को कारित करना स्वीकार करते हुए बताया गया कि चोरी की इन सामानों को बेंचकर अपना खर्चा खुराकी चलाता हूं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

दिनेश सोनकर उर्फ डूलडूल पुत्र स्व0 लल्लू सोनकर निवासी शुक्लहा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी—

- 1- 01 अदद चांदी का मुकुट
- 2- 06 अदद चांदी का कड़ा
- 3- 02 अदद पीतल की घण्टी
- 4- 01 अदद पीतल का दीपदान
- 5- 22 नग पूजा का पीतल का बर्तन व सामान
- 6- 01 अदद लोहे का सड़सीनुमा औजार

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 नरेन्द्र कुमार यादव चौकी प्रभारी भरुहना थाना को0देहात मीरजापुर मय टीम।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹ 20 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

